



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92]  
No. 92]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 1978/फाल्गुन 1, 1899  
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 1978/PHALGUNA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate pagling is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1978

अधिसूचना

का०आ० 115(अ).—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 818 (ई) तारीख 3-12-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइपलाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और अभी उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहीत होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी संपत्ति से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहाय होगा।

अनुसूची

महाराष्ट्र—राज्य	जिला—कुलाबा	तालुका—उरण
गांव	सर्वेक्षणन	हेक्टेयर ए.आर.ई. सेन्टेयर
रामवड	126/3	00 03 00
	126/4	00 01 00
	126/6	00 06 00
	126/7	00 10 00

एस०जी० कुलकर्णी  
सक्षम अधिकारी तेल व वायु  
महा मंडल, मुम्बई

[संख्या 12020/7/77-प्रोडक्शन-II]  
सी० आर० वैद्यनाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS &  
FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 20th February, 1978

NOTIFICATION

S.O. 115(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 818(E) dated 3-12-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in

land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of

this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Trombay

State : Maharashtra District : Kulaba Taluka : Uran

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ranwad	126/3	00	03	00
	126/4	00	01	00
	126/6	00	06	00
	126/7	00	10	00

S. G. KULKARNI, Competent Authority,

Oil & Natural Gas Commission, Bombay

[No. 12020/7/77-Prod.-II]

C. R. VAIDYANATHAN, Jt. Secy.